११९ ०१ २०१२ (५ ६० ११९)

१:

२:

२:१:

२:२:

२:३: “ ”

२:४:

२:५:

२:६:

२:७:

१२००

२०१२)[

२०१३) [

२०१२-१३ :

१९७२

१९७४

३४

१९६७

२

२:

२:१:

२:२:

२:३:

२४:

२५:

२६:

२७:

१९८७)

१३

॥ ॥

॥ ॥

॥ ॥

॥ ॥

॥ ॥

॥ ॥

॥ ॥

॥ ॥

१)

२)

५ १९४७

८४७४१०

०९९३१६५४७४२

२०११

२०११

२०१२ (

१) २००९) २) २००९) ३) २००९) ४) २०१०) ५) २०१०)

१) २००९) २) २०१०) ३) २०१२)

१) २००९) २) २०१२) ३) २०१२)

१) २०१०)

२०१२)

१) २०१२)

२०१२)

१) २०१२) २) २०१२)

१) २०१२) २) २०१२)

१:

२:

३:

४:

५:

६:

७:

८:

९:

१०:

११:

१२:

१३:

१४:

१५:

१६:

१७:

१८:

१९:

२०:

२१:

२२ः

२३ः

२४ः

२५ः

२६ः

२७ः

२८ः

२९ः

३०ः

३१ः

३२ः

३३ः

३४ः

३५ः

३६ः

३७ः

३८ः

३९ः

४०ः

४१ः

४२ः

४३:

४४:

४५:

४६:

४७:

४८:

४९:

५०:

५१:

५२:

५३:

५४:

५५:

५६:

५७:

५८:

५९:

६०:

६१:

६२:

६३:

६४:

६५:

६६:

६७:

६८:

 मानुषीमिह संस्कृताम् ISSN 2229-547X

ऑ

मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका विदेह' ११९ म अंक ०१ दिसम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ६० अंक ११९) मानुषीमिह संस्कृताम् ISSN 2229-547X
VIDEHA

मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका विदेह' ११९ म अंक ०१ दिसम्बर २०१२ (वर्ष ५ मास ६० अंक ११९) मानुषीमिह संस्कृताम् ISSN 2229-547X VIDEHA

१३-०५-

१९६२

3 :

3 :१:

3 :२:

मानुषीमिह संस्कृताम् ISSN 2229-547X VIDEHA

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५:

१६:

१७:

१८:

१९:

२०:

२१:

२२:

२३:

२४:

२५:

२६:

२७:

२८:

२९:

३०:

३१:

३२:

३३:

३४:

३५:

३६:

३७:

३८:

३९:

४०:

४१:

४२:

४३:

४४:

४५:

४६:

४७:

४८:

४९:

५०:

५१:

५२:

५३:

५४:

५५:

५६:

५७:

५८:

५९:

६०:

६१:

६२:

६३:

६४:

६५:

६६:

६७:

६८:

६९:

७०:

७१:

७२:

७३:

७४:

⠛⠝⠛⠝⠜⠊⠞ ⠅⠗⠈⠍ ⠛⠍⠛⠍⠜⠊⠞ ⠞⠓⠊⠝⠜
⠎⠜⠛⠗ ⠴⠔⠇ ⠶⠏⠃⠑ ⠅⠗⠌ ⠡⠌⠲
⠴⠔⠇ ⠴⠊⠇⠓⠕⠗⠊ ⠎⠗⠕⠧⠗ ⠞⠓⠊⠝⠜
⠚⠊⠝⠛⠔⠅ ⠎⠜⠝ ⠉⠐⠻⠃⠑ ⠅⠗⠌ ⠡⠌⠲
⠏⠆⠻⠊ ⠎⠍⠑⠲⠲⠲⠲⠲⠲⠲

⠎⠞⠗⠰⠛ ⠌⠲⠲⠲⠲⠲⠲

⠎⠞⠗⠰⠛ ⠌ ⠎⠰⠎⠜⠗⠍⠑
⠎⠍⠗⠎ ⠗⠰⠛ ⠮⠻⠌⠞ ⠗⠓⠌ ⠡⠌⠲
⠮⠜⠗ ⠅⠕⠝ ⠈⠝⠈⠓⠜⠗ ⠃⠊⠓⠜⠻⠊
⠗⠜⠞⠊ ⠙⠊⠝ ⠏⠑⠃⠌⠞ ⠗⠓⠌ ⠡⠌⠲
⠎⠞⠗⠰⠛ ⠌⠲⠲⠲⠲⠲⠲⠲

⠅⠓⠊ ⠎⠥⠇⠏⠼ ⠃⠝⠊ ⠅⠥⠇⠟⠼
⠣⠾⠊⠽⠜ ⠣⠜⠾ ⠣⠾⠌⠞ ⠗⠓⠌ ⠡⠌⠲
⠚⠥⠜ ⠚⠕⠞⠊ ⠏⠡⠥⠜ ⠏⠅⠻⠊
⠙⠃ ⠥⠝⠜⠗ ⠅⠗⠌⠞ ⠗⠓⠌ ⠡⠌⠲
⠎⠞⠗⠰⠛ ⠌⠲⠲⠲⠲⠲⠲⠲

⠎⠊⠝⠑⠓ ⠎⠊⠝⠑⠓⠊⠇ ⠎⠓⠗⠊ ⠃⠓⠾⠊
⠛⠜⠗⠜ ⠚⠕⠻ ⠅⠗⠌⠞ ⠗⠓⠌ ⠡⠌⠲
⠊⠎⠗⠚⠍⠜⠝ ⠓⠕⠊⠑ ⠚⠞⠑
⠅⠜⠄⠾ ⠛⠥⠇⠜⠃ ⠓⠄⠎⠌⠞ ⠗⠓⠌ ⠡⠌⠲

⠎⠚⠊ ⠎⠜⠚⠊ ⠎⠊⠗ ⠎⠚⠜

⠙⠕ ⠅⠜⠓ ⠚⠊⠝⠛⠔ ⠅⠊⠁⠑ ⠃⠝⠑⠇⠪⠆

⠅⠊⠡⠥ ⠝⠑ ⠅⠜⠍⠝⠜ ⠍⠝⠍⠑ ⠺⠝⠝⠑

⠑⠓⠑⠝ ⠅⠊⠁⠑ ⠃⠝⠑⠇⠪⠆⠲

⠃⠑⠾⠔ ⠅⠊⠁⠑⠲⠲⠲⠲⠲⠲⠲

⠍⠝ ⠍⠝ ⠍⠜⠇⠔ ⠃⠌⠎⠇ ⠡⠌

⠍⠜⠇⠊⠝ ⠅⠊⠁⠑ ⠃⠝⠑⠇⠪⠆

⠍⠝ ⠍⠇⠊⠝ ⠍⠥⠄⠓ ⠅⠜⠝⠊ ⠅⠜⠝⠊

⠃⠑⠾⠔ ⠅⠊⠁⠑ ⠃⠝⠑⠇⠪⠆⠲

⠓⠑ ⠩⠊⠧⠙⠜⠝⠔ ⠓⠑ ⠃⠍⠘⠕⠇⠜

⠃⠑⠾⠔ ⠅⠊⠁⠑ ⠃⠝⠑⠇⠪⠆⠲

⠍⠝⠅ ⠃⠜⠧⠲⠲⠲⠲⠲⠲

⠍⠝⠅ ⠃⠜⠧ ⠎⠍⠑⠾⠊ ⠎⠍⠑⠾⠊

⠍⠝⠕⠘⠜⠧ ⠏⠝⠏⠑ ⠇⠛⠌ ⠡⠌⠲

⠎⠤⠘⠜⠧ ⠈⠘⠜⠧ ⠅⠥⠘⠜⠧ ⠘⠧

⠗⠳⠏ ⠗⠆⠛ ⠎⠚⠃⠑ ⠇⠛⠌ ⠡⠌⠲

⠗⠳⠏ ⠗⠆⠛⠲⠲⠲⠲⠲⠲⠲

⠍⠓⠅⠊ ⠍⠓⠊ ⠏⠗⠅⠊ ⠝⠊⠅⠜⠗⠊

⠓⠗ ⠓⠇⠅⠲⠲⠲⠲⠲⠲

⠓⠗ ⠓⠇⠅ ⠓⠇⠝⠈⠼⠍⠑
⠍⠔⠗ ⠙⠕⠇ ⠼⠑⠓⠇ ⠃⠝⠌ ⠡⠌⠲
⠏⠥⠗ ⠏⠥⠯⠈⠅⠗ ⠏⠥⠗⠎⠈⠎⠗
⠃⠜⠾ ⠣⠜⠾ ⠣⠾⠃⠔ ⠉⠇⠌ ⠡⠌⠲
⠓⠇ ⠓⠇⠅ ⠓⠇⠝⠈⠼⠍⠑⠲⠲⠲

⠑⠅ ⠙⠳ ⠼⠔⠝ ⠉⠜⠗⠊ ⠗⠓⠊⠼⠕
⠛⠼⠊ ⠊⠆⠚⠔⠝ ⠛⠜⠻⠔ ⠮⠻⠌ ⠡⠌⠲
⠃⠑⠓⠊⠎⠜⠃ ⠓⠊⠎⠜⠃ ⠃⠝⠊ ⠃⠝
⠮⠻⠊ ⠮⠻⠅⠊ ⠮⠻⠌⠼ ⠗⠓⠌ ⠡⠌⠲
⠮⠻⠊ ⠮⠻⠅⠊⠲⠲⠲⠲⠲⠲⠲

⠇ ⠰⠅ ⠈⠽⠕⠮⠊⠽⠜ ⠎⠾⠊ ⠓⠾⠊
⠎⠰⠛⠔ ⠎⠰⠛ ⠉⠇⠌⠼ ⠗⠓⠌ ⠡⠌⠲
⠝⠊⠗⠲⠌ ⠏⠗⠰⠊ ⠃⠜⠾ ⠃⠾⠕⠓⠔
⠖⠇ ⠅⠗⠝⠔ ⠃⠕⠛⠌⠼ ⠗⠓⠌ ⠡⠌⠲
⠖⠇ ⠅⠗⠝⠔⠲⠲⠲⠲⠲⠲⠲

⠉⠕⠾ ⠉⠜⠾⠲⠲⠲⠲⠲⠲

⠉⠕⠾ ⠉⠜⠾ ⠉⠕⠾⠊⠽⠜ ⠙⠑⠇⠅⠌
⠍⠥⠄⠓ ⠝⠜⠅ ⠃⠌⠅⠜ ⠙⠑⠇⠅⠌⠲
⠉⠕⠾ ⠉⠜⠾⠲⠲⠲⠲⠲⠲⠲

⠅⠜⠝ ⠅⠝⠅ ⠡⠔⠝⠊ ⠧⠔⠝⠊
⠃⠓⠔⠗ ⠃⠪⠅ ⠃⠝⠜ ⠙⠑⠇⠅⠌⠲
⠝⠜⠅ ⠍⠥⠄⠓ ⠅⠜⠝ ⠼⠜⠅⠊
⠉⠕⠾ ⠉⠜⠾ ⠉⠕⠾⠊⠽⠜ ⠙⠑⠇⠅⠌
⠉⠕⠾ ⠉⠜⠾⠲⠲⠲⠲⠲⠲⠲

⠃⠓⠔⠗ ⠃⠪⠅ ⠍⠊⠇⠊ ⠍⠊⠇⠊
⠍⠇⠊ ⠜⠄⠨⠊ ⠍⠎⠅⠜ ⠙⠑⠇⠅⠌⠲
⠛⠝⠈⠓ ⠍⠓⠅ ⠍⠓⠅ ⠛⠝⠈⠓
⠙⠊⠝ ⠗⠜⠺⠊ ⠛⠝⠓⠜ ⠙⠑⠇⠅⠌⠲
⠙⠊⠝ ⠗⠜⠺⠊⠲⠲⠲⠲⠲⠲⠲

⠎⠜⠄⠴ ⠃⠑⠇⠜ ⠧⠑⠇⠔ ⠖⠱⠇⠊
⠘⠕⠗ ⠘⠤⠗⠥⠅⠧⠜ ⠅⠓⠌ ⠡⠌⠲
⠗⠜⠺⠥ ⠏⠜⠗ ⠅⠑⠏⠊ ⠅⠑⠏
⠏⠜⠾ ⠎⠝ ⠮⠻⠃⠌⠼ ⠉⠇ ⠡⠌⠲
⠏⠜⠾ ⠎⠝⠲⠲⠲⠲⠲⠲⠲

१ २ ३

१

१

२

२१२२-२१२२-२१२२)

२

3

१

२

3

⠓⠿⠪ ⠙⠕⠯ ⠜ ⠛⠥⠼⠞⠄ ⠓⠜⠑⠞ ⠎⠘⠄⠍⠑⠄
⠃⠊⠝⠜ ⠛⠇⠞ ⠓⠍ ⠝⠌ ⠏⠗⠜⠑⠃ ⠑⠞⠪

⠁⠓⠜⠄ ⠃⠊⠎⠗⠊ ⠁⠏⠈⠏⠝ ⠏⠥⠗⠝⠅⠜ ⠃⠃⠰⠫⠗
⠉⠇⠳⠄ ⠝⠧ ⠧⠊⠉⠜⠗⠎⠄ ⠝⠓⠜⠑⠃ ⠑⠞⠪

⠅⠓⠇ ⠅⠑⠅⠗⠕ ⠍⠜⠝⠃⠌ ⠃⠜⠞ ⠝⠌ ⠚⠪⠄
⠞⠄ ⠘⠳⠸⠇ ⠁⠓⠜⠄ ⠍⠗⠊ ⠅⠝⠜⠑⠃ ⠑⠞⠪

⠃⠓⠗⠑ ⠍⠥⠞⠅⠜⠗⠊⠃ ⠲⠖⠳⠇⠥⠜ ⠍⠝⠑ ⠉⠜⠗⠊ ⠃⠑⠗⠲

४

⠏⠈⠗⠑⠍ ⠝⠌ ⠃⠜⠊ ⠔ ⠚⠓⠗ ⠡⠌
⠏⠕⠰⠊⠗⠎⠄ ⠥⠺⠇ ⠃⠥⠴⠥ ⠇⠓⠗ ⠡⠌

⠏⠈⠗⠑⠍ ⠍⠑⠄ ⠚⠜⠝ ⠚⠜⠑⠞ ⠉⠇⠊
⠞⠫⠏⠊ ⠅⠑ ⠍⠗⠃ ⠔ ⠚⠓⠗ ⠡⠌

⠝⠌ ⠏⠗⠥ ⠏⠈⠗⠑⠍⠅⠑ ⠚⠜⠇ ⠍⠑⠄
⠑⠨⠝⠕ ⠑⠨⠗⠑ ⠏⠓⠗ ⠡⠌

⠝⠌ ⠅⠗⠥ ⠏⠈⠗⠑⠍⠅⠑ ⠔ ⠝⠩⠜

१ २ ३

१

२

१:

२ः

२५

३ :

४ :

3

२

3

१

२

३

४

२

१

३

४

५

१

२

३

४

५

६

७

८

९

१०

२२ २२)

॥२३॥

ॐ

ॐ

॥

६

७

८

९

१०

१ः२ः

१ः

८: [illegible]

९: [illegible]

१०: [illegible]

११: [illegible]

१२: [illegible]

१३: [illegible]

१४: [illegible]

१५: [illegible]

१६:

१७:

१८:

१९:

२०:

२१: ऐ ओ

११/८/७६ ११/८/७६

११/०८/७६

२:

२.१:

२.२.

१.

२.

३.

४.

५.

६.

७.

८.

[illegible]

[illegible]

१०: [illegible]

११: [illegible]

२: [illegible]

१३: [illegible]

१४:

[illegible]

१५: [illegible]

१६: [illegible]

१७: [illegible]

[illegible]

१८:

[illegible]

१९: [illegible]

२०

[illegible]

२१: [illegible]

२२:

[illegible] २३: [illegible]

२४: [illegible]

२५: [illegible]

२६: ⠚⠜

⠗⠓⠇ ⠚⠜⠽ ⠗⠓⠇ ⠚⠜⠑ ⠗⠓⠇

२७: ⠝⠊⠅⠇⠿ ⠝⠊⠅⠇⠑

⠇⠴⠛⠇ ⠇⠛⠇ ⠃⠓⠗⠴⠿ ⠃⠓⠗⠴⠑ ⠇⠴⠛⠇ ⠇⠛⠇ ⠝⠊⠅⠇, ⠃⠓⠗⠴ ⠇⠴⠛⠇

२८: ⠕⠫⠿ ⠚⠫⠿ ⠚⠫, ⠕⠫, ⠚⠫⠑ ⠕⠫⠑

२९:

⠅⠔ ⠏⠓⠗⠇ ⠚⠑ ⠅⠊ ⠏⠓⠗⠇ ⠚⠑

३०: ⠚⠑ ⠚⠑⠄, ⠚⠑⠄⠄

३१: ⠅⠓⠉⠂ ⠿⠜⠉⠂ ⠏⠕⠻ ⠏⠜⠗⠅ ⠅⠓⠂⠉ ⠿⠜⠂⠉ ⠅⠓⠉ ⠿⠜⠉

⠿⠜⠉⠂ ⠏⠕⠻

३२: ⠂⠓⠕ ⠕⠓⠕

३३:

⠓⠄⠖⠑ ⠓⠄⠖⠿ ⠓⠄⠖⠂

३४: ⠟⠌ ⠴⠅⠂ ⠉⠖ ⠟⠌ ⠅⠂⠸⠴ ⠉⠖ ⠟⠌ ⠧⠴ ⠉⠖

३५: ⠖⠴⠖⠤ ⠖⠖⠤⠗ ⠖⠴⠖ ⠖⠖⠤⠗

३६: ⠑⠓ ⠖⠴⠫ ⠑ ⠑⠄ ⠖⠴⠫

३७:

⠅⠔ ⠅⠔, ⠅⠔⠂ ⠉⠔⠗⠈⠑⠔⠅⠴⠗⠴⠟⠈⠫⠖⠑ ⠂ ⠧⠗⠈⠚⠂⠫

३८: ⠚⠃⠴⠃ ⠚⠧⠴⠃

३९: ⠅⠗⠑⠫⠴⠓ ⠅⠗⠑⠫⠴⠓ ⠅⠗⠿⠫⠴⠓

४०: ⠉⠇⠴⠟ ⠉⠂⠉⠔ ⠉⠇⠴⠟ ⠉⠂⠉ ⠉⠇⠴⠟ ⠉⠂⠖

४१

४२:

४३:

४४:

४५:

४६:

४७:

४८:

४९:

५०:

५१:

५२:

५३:

५४:

५५:

५६:

५७:

५८:

५९:

६०:

६१:

६२:

६३:

६४:

६५:

६६:

६७:

६८:

६९:

७०:

७१:

७२:

७३:

७४: [illegible]

७५:

[illegible]

७६:

[illegible]

७७: [illegible]

[illegible]

७८: [illegible]

७९:

[illegible]

८०: [illegible]

८१

[illegible]

८२: [illegible]

८३: [illegible]

८४: [illegible]

[illegible]

८५: [illegible] ८६:

[illegible]

८७: [illegible]

८८: [illegible]

[illegible]

८९: [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

९०: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

९१: [illegible]

९२: [illegible]

९३: [illegible]

९४: [illegible] [illegible] _ [illegible]

९५: [illegible] [illegible]

९६:

[illegible] [illegible] [illegible]

९७: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

९८: [illegible]

९९: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

१००: [illegible] [illegible]

१०१:

[illegible] [illegible]

१०२: [illegible] [illegible]

१०३:

[illegible]

१०४: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

१०५:

[illegible]

१०६:

१०७:

१०८:

१०९

११०:

१११:

११२:

११३:

११४:

११५:

११६:

११७:

११८:

११९:

१२०:

१२१:

१२२:

१२३:

१२४:

१२५:

१२६:

१२७:

१२८:

१२९:

१३०:

१३१:

१३२:

१३३:

१३४:

१३५:

१३६:

१३७:

१३८:

१३९:

१४०

१४१:

१४२:

१४३:

१४४:

१४५:

१४६:

१४७

१४८:

१४९:

१५०:

१५१:

१५२:

१५३:

१५४:

१५५:

१५६:

१५७

१५८:

१५९:

१६०:

१६१:

१६२:

१६३:

१६४:

१६५:

१६६:

१६७:

१६८:

१६९:

१७०:

१७१:

१७२:

१७३:

१७४:

१७५:

१७६:

१७७:

१७८:

१७९:

१८०:

१८१:

१८२:

१८३:

१८४:

१८५:

१८६:

१८७:

१८८:

१८९:

१९०:

१९१:

१९२:

१९३:

१९४:

१९५:

१९६:

१९७:

१९८:

१९९:

२००:

२०१:

२०२:

२०३:

२०४:

२०५:

२०६:

२०७:

२०८:

२०९:

२१०:

२११:

२१२:

२१३:

२१४:

२१५:

२१६:

२१७:

२१८:

२१९:

२२०

२२१:

२२२:

२२३:

२२४:

२२५:

२२६:

२२७:

२२८:

२२९:

२३०:

२३१:

२३२:

२३३:

२३४:

२३५:

२३६:

२३७:

२३८:

२३९:

२४०:

२४१:

२४२:

२४३:

२४४:

२४५

२४६:

२४७:

२४८:

२४९:

२५०:

२५१:

२५२:

२५३:

२५४

२५५

२५६

२५७

२५८

२५९

२६०

२६१

२६२

२६३

२६४

२६५

२६६

२६७

२६८

२६९

२७०

२७१

२७२:

२७३:

२७४:

२७५:

२७६:

२७७:

२७८:

२७९:

२८०:

२८१:

२८२:

२८३:

२८४:

२८५:

२८६:

२८७:

२८८:

२८९:

२९०:

२९१:

२९२:

२९३:

२९४:

२९५:

२९६:

२९७:

२९८

२९९:

३००:

३०१:

३०२:

३०२:

३०३:

३०४:

३०५:

३०६:

३०७:

३०८:

३०९:

३१०:

३११:

३१२:

३१३:

३१४:

३१५:

३१६:

३१७:

१४२०

१ [illegible]

[illegible]

[illegible] ५० [illegible]

[illegible] ५० [illegible]

२ [illegible]

३ [illegible] ऑ [illegible]

४ [illegible]

५ [illegible]

[illegible]

६ [illegible]

७ [illegible]

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६ ऑ

१७

१८:

१९:

२०:

२१:

२२:

२३:

२४:

२५:

२६:

२७:

२८:

२९:

३०:

३१

३२

३३

३४

३५

३६

३७

१)

१ ७

२):

१ ः. ७

६९२

१: २: ३: ४

१: २: ३: ४

२:

१

९:

१०: ... ८८ ... ७५ ...

११:

१२:

१३:

१४:

१५: ... ऑ ...

१६:

१७:

१८:

१९:

२०:

२१:

२२:

२३

२४

२५

२६

२७

२८

२९

३०

३१

३२

३३ [illegible]

३४ [illegible]

३५ [illegible]

३६ [illegible]

३७ [illegible]

३८ [illegible]

३९ [illegible]

४० [illegible]

४१ [illegible]

४२ [illegible]

४३ [illegible]

४४ [illegible]

५५:

५६:

५७:

५८:

५९:

६०:

६१:

६२:

६३:

६४:

६५:

६६

६७

६८

६९

७०

७१

७२

७३

७४: [illegible]

७५: [illegible]

७६: [illegible]

७७: [illegible]

७८: [illegible]

७९: [illegible]

[illegible]

[illegible]

२००४-१२: [illegible]